



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 75-2023/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, APRIL 24, 2023 (VAISAKHA 4, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अप्रैल, 2023

संख्या 11 / जीएसटी-2-— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, पंजीकृत व्यक्ति, जिनका पंजीकरण उक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन 31 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले रद्द किया गया है और जो उक्त अधिनियम की धारा 30 में विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर ऐसे पंजीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करने में असफल रहे हैं, को पंजीकृत व्यक्ति के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो ऐसे पंजीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे, अर्थात्—

- (क) पंजीकृत व्यक्ति, 30 जून, 2023 तक ऐसे पंजीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकता है;
- (ख) प्रतिसंहरण के लिए आवेदन, पंजीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तिथि तक देय विवरणी प्रस्तुत करने और ऐसी विवरणी के निबंधनों के अनुसार कर के रूप में देय राशि का ब्याज, शास्ति और ऐसी विवरणी के संबंध में विलंब फीस के लिए भुगतान योग्य राशि सहित, भुगतान करने के बाद ही फाइल किया जाएगा;
- (ग) पंजीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु ऐसे मामलों में और समय अवधि विस्तार, उपलब्ध नहीं होगा।

व्याख्या — इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम की धारा 30 में विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर पंजीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है, जिसकी पंजीकरण के रद्दकरण के आदेश या उक्त अधिनियम की धारा 107 के अधीन पंजीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन खारिज करने के आदेश के विरुद्ध अपील उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय अवधि का पालन करने में असफल रहने के आधार पर खारिज की गई है।

देविंदर सिंह कल्यान,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 24th April, 2023

No. 11/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby notifies that the registered person, whose registration has been cancelled under clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the said Act on or before the 31st day of December, 2022, and who has failed to apply for revocation of cancellation of such registration within the time period specified in section 30 of the said Act as the class of registered persons who shall follow the following special procedure in respect of revocation of cancellation of such registration, namely:—

- (a) the registered person may apply for revocation of cancellation of such registration upto the 30th day of June, 2023;
- (b) the application for revocation shall be filed only after furnishing the returns due upto the effective date of cancellation of registration and after payment of any amount due as tax, in terms of such returns, along with any amount payable towards interest, penalty and late fee in respect of the such returns;
- (c) no further extension of time period for filing application for revocation of cancellation of registration shall be available in such cases.

Explanation:- For the purposes of this notification, the person who has failed to apply for revocation of cancellation of registration within the time period specified in section 30 of the said Act includes a person whose appeal against the order of cancellation of registration or the order rejecting application for revocation of cancellation of registration under section 107 of the said Act has been rejected on the ground of failure to adhere to the time limit specified under sub-section (1) of section 30 of the said Act.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.